

प्रकाशनार्थ,

16 फरवरी 2023 गोरखपुर

जन कल्याण न्यास गोरखपुर एव गुरु श्री गोरखनाथ ब्लड बैंक के संयुक्त तत्वाधान में एक विशाल रक्त शिविर का थी आयोजन माधवधाम परिसर में किया गया

इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री सुभाष जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रांत प्रचारक द्वारा किया गया जिन्होंने इस संस्था को रक्तदान शिविर आयोजित करने के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि रक्तदान को विश्व में सबसे बड़ा दान माना जाता है क्योंकि रक्तदान ही है जो ना केवल किसी रोगी के प्राणों की रक्षा करती है बल्कि मरीज का जीवन बचा कर उस रोगी के परिवार में ढेरो खुशियां भर देता है रक्तदान महादान हैं यह दान करने पर मिलने वाली खुशी और संतोष का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता है

विशिष्ट अतिथि नगर सांसद माननीय श्री रवि किशन जी ने वहा उपस्थित रक्तदाता एव जनमानस का उत्साह वर्धन किया और लोगो से अपील कि की जब भी समय मिले और यदि आप स्वस्थ है तो ब्लड बैंक में जा कर अथवा इस तरह के रक्तदान शिविर में आ कर रक्तदान अवश्य करे ।

विभाग प्रचारक अंबेश जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बताया की स्व रक्तदाता के द्वारा दिए गए रक्तदान से आवश्यक मंद रोगियों के प्राणों की रक्षा होती है रक्तदान शिविर का आयोजन हमारे लिए गर्व की बात है

वहा मौजूद राष्ट्रीय सेवा संघ के सचिव न्यास अवधेश चौरसिया जी ने बताया की निरंतर रक्तदाताओं के जागरूकता और रक्तदान करने के विषय में फैली भ्रांतियों को दूर करने की कोशिश अब रंग ला रही हैं शहर की सामाजिक संस्थाएं , कालेज ,बैंक और आम नागरिक भी अब रक्तदान के लिए आगे आ रहे है।

एव डॉ अमरनाथ चटर्जी सचिव न्यास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने लोगो को ब्लड देने से होने वाली फायदो के बारे में बताया और ब्लड दे रहे है लोगो का धन्यवाद ज्ञापित किया ॥

इस अवसर पर ब्लड बैंक प्रभारी डॉ अवधेश अग्रवाल जी में लोगो को बताया की 18 से 65 वर्ष आयु के लोगो को इन सभी प्रकार के शिविर में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए ब्लड देने से लोगो को ढेरो फायदे होते है जैसे मोटापा कम होता है हृदय जैसे रोगों को कम होने की संभावना रहती है कैंसर जैसे बीमारियों को भी कम करने में सहयोग मिलता है और आप के द्वारा दिए रक्त से कई प्रकार की बीमारियों की जांच मुफ्त में हो जाती है जिससे यदि कोई कमी हुई तो उसका निदान समय से पहले किया जा सकता है

इस रक्तदान शिविर में सुभाष जी, अंकित मिश्रा , तारकेश्वर, अभिषेक ,प्रभात, अंबेश, अजय, अश्वनी ,निलेश, उत्सव , सुमित, समेत 30 लोगो ने रक्तदान किया रक्तदान शिविर को सफल बनाने में ब्लड बैंक टेक्नीशियन अमित मिश्रा ,गिरीश पाठक ,निधि नायक,अमित सिंह घनश्याम और संदीप का विशेष योगदान रहा

इस पूरे कार्यक्रम के सूत्रधार एव कर्णधार देवरिया मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ राजेश कुमार बरनवाल थे जिन्होंने गोरखनाथ ब्लड बैंक के अधिकारी ,टेक्नीशियन एव कर्मचारी के प्रति अपनी सहृदय आभार ज्ञापित किया ॥